



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

RAJASTHAN, JAIPUR

ORDER

Jaipur, August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/7435 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal Officer Municipal Board Bhinmal has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bhinmal. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal Officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय नगर पालिका, भीनमाल जिला – जालौर

परिशिष्ट 'd'

क्र.सं.	वार्ड स.	वार्ड विवरण
1	01	जुंजाणी भीनमाल रोड पर स्थित कागवराह याम मन्दिर व कृष्ण सरोवर के पास की समस्त बस्तियों को लेते हुये आगे मेघवालों की बस्ती, भीलों की बस्ती के समस्त मकानों को लेते हुये नीलकंठ महादेव मन्दिर तक व आगे मोइलावाला बेरा, भावडवाव, केरा वाला बेरा से भीनमाल भागल रोड पर दांयी ओर के मकानों को लेते हुये कागवराह श्याम मन्दिर तक। वार्ड सीमा के अन्दर की नीलकंठ महादेव मन्दिर व राज हॉस्पीटल के पास की समस्त बस्ती।
2	02	भागलभीम-भीनमाल रोड पर सड़क के बांयी ओर के मकानों को लेते हुये गौड़ी पा वर्नाथ जैन मन्दिर, खेताराम जाट का बेरा, भीलों की ढाणी व जाटों का बेरा की बस्ती को लेते हुये जाखोब तालाब मे स्थित भीलों की बस्ती लेते हुये पुराना जुंजाणी रोड बस स्टेण्ड पर रामदेवजी मन्दिर से आगे भीनमाल-जुंजाणी मुख्य सड़क के बांयी ओर के मकानात लेते हुये रणछोड जी माली के मकान व दुकानों से आगे सादुला बेरा के समस्त मकानों को लेते हुये गायों के आखरिये से राजपूत समाज शमशान भूमि होते हुये जाखोब तालाब के पीछे की पाल के सहारे होते हुये भीनमाल-भागलभीम मुख्य सड़क तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
3	03	वागरियों के मौहल्ले मे भांकर पुरोहित के मकान से अणदाजी का मकान लेते हुये भांकर जी, मोतीजी वागरी के मकानों को लेते हुये रामाराम वागरी के मकान से वागरियों व हरिजनों के मकानों को लेते हुये वर्शाति नाले से क्षेमंकरी माताजी मार्ग पर दोनों ओर की बस्तीयों को लेते हुये आगे पीपलियां कोलोनी, श्रीनाथ

		वाटिका आगे मेघवालों की बस्ती,आलडिया बेरा की बस्ती तक एवम् वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
4	04	श्रवण विश्नोई के मकान से चाणक्य विद्यापीठ के गली के समस्त मकान व आगे पीराराम सुथार का मकान से मोहन जी दर्जी के मकान से सुरेश पारिक के मकान व सुरेश पारिक के मकान के पीछे की गली मे स्थित सैन,भाट,जागरियों के मकान व पाल के अन्दर सैनो के मकान व बालदिया भाटो के मकानों को भास्ती करते हुये मसराजी भीखाजी सैन का मकान से चाणक्य विद्यापीठ स्कूल,जागरियों के मकान लेते हुये मोहन जी के गाजी लुहार का मकान से देवासी जेताराम आसा जी खाटाणा का मकान से जाटो के मकान लेते हुये सालूराम देवासी के गोदाम से मेघवालों की गली के दोनों तरफ के मकानों को लेते हुये मोहन जी घांची से कस्तुराम घांची का मकान व आगे सवाराम मेघवाल का मकान आगे जवाहर मेघवाल ,सताराम, बिजलाराम मेघवाल का मकान व आगे पूनमाराम,रमेश घांची का मकान। करडा बाई पास रोड पर कानाराम के मकान से तलकाराम,पारसमल,अचलाराम के मकान व अन्दर वागरियों व भीलों की बस्ती,श्रावण भाद्रवा बेरा की समस्त बस्ती को लेते हुये करडा रोड पर पुलिये के पास पन्नाराम,ईराराम,जवाराम,दलाराम मेघवालों के मकान से देवासी समाज भाम गान भूमि से नाड़ी के पाल पर स्थित सैनो के मकान तक, वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
5	05	रेबारियों की ढाणी (करडा रोड) मे आम्बाराम देवासी के प्लॉट से नरसी राम के मकान से लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से सालूजी देवासी की दुकानों से सोवलाराम,वजाराम,नरेश देवासी के मकानों को लेते हुये पीछे गली मे खेताराम के मकान लेते हुये आसूभारती के प्लॉट मे से कृष्णा उच्च प्रा. विद्यामन्दिर स्कूल के लाईन के सभी मकानों को लेते हुये मालाराम पीराजी देवासी व नेथीराम देवासी का मकान व सामने करनाजी देवासी का मकान व आगे चैनाजी देवासी के मकान से बगदाराम जी देवासी मकान लेते हुये रेबारियों की ढाणी चौक से होते हुये थाना जी देवासी का मकान व आगे नरसीराम देवासी के मकान तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त रेबारियों की बस्ती।
6	06	राजकीय महाविद्यालय व हॉस्टल लेते हुये भीनमाल रानीवाडा रोड पर भांखे वर पा वैनाथ मन्दिर होते हुये पीछे समस्त महे वरी कोलोनी,बगस्थली माता जी मन्दिर की बस्ती व करडा रोड आवासीय योजना होते हुये आगे करडा चार रास्ता पर स्थित क्षेंमकरी जनरल स्टोर ,करडा रोड की तरफ प्रेम प्लाजा काम्प्लेक्स से सरस्वती ट्रेडिंग कम्पनी से नीलकंठ महादेव मन्दिर होते हुये रेबारियों की ढाणी स्कूल से रायमल चौधरी के मकान से श्रीकला पेन्टर के मकान से बद्री जी गौड का प्लॉट से चुन्नीलाल पुरोहित का प्लॉट से भाकराजी दर्जी का मकान व गली मे इन्द्रा पब्लिक स्कूल व आगे वीरमाराम सुथार के मकान से रामदेव जी मन्दिर से आगे सुजाराम सुथार के मकान से मानाराम भाट से गफुरखां मोयला का मकान लेते हुये रणछोडपुरी महाराज के मकान से आगे कोलेज के पीछे की वर्षाति नाले तक की समस्त बस्ती। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
7	07	भीनमाल-आलडी रोड पर सवाई महे वरी के मकान से सुरे । हरिजन के मकान होते हुये भीनमाल आलडी रोड पर बांयी तरफ भाटो की बस्ती लेते हुये आ गापुरा माता जी मन्दिर से रेबारी समाज भूमि व पीछे स्थित नाथो की समस्त बस्ती,जी.एस.एस. व अन्दर के आवासीय मकान लेते हुये माली समाज छात्रावास व आगे मेघवालों की समस्त बस्ती लेते हुये नाले के सहारे स्थित छोगराम भाट के मकान से सवाई महे वरी का मकान एवं बालदियां भाटो की स्कूल से समस्त नट बस्ती एवं आगे भाटो की बस्ती। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती से वर्षाति पुलिया तक।
8	08	भीनमाल-रानीवाडा रोड पर स्थित मदन मोहन मालवीय नगर फैस प्रथम व द्वितीय के समस्त मकानों को लेते हुये एल.आई.सी. आफिस से पुराना चुंगी नाका से पुलिस थाना से सर्वोदय अस्पताल होते हुये डॉ. भूपेन्द्र चौधरी

		हॉस्पीटल व सामने की समस्त दुकानों को लेते हुये रिको औद्योगिक क्षेत्र व आगे विनायक नगर, अगोक नगर, याम सिटी के समस्त मकानात् । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
9	09	भीनमाल रानीवाडा बाईपास पर भयाम व संजय मार्बल के सामने रेलवे ट्रेक के सहारे आगे जसवन्तपुरा रेलवे क्रोसिंग से मेन रोड पर रेलवे बाउन्ड्री मे स्थित रेलवे क्वार्टर्स लेते हुये मुख्य सड़क पर स्थित राजदीप होटेल से प्रेमसिंह जी दहिया के गन हाउस की दुकान से आगे अमृत पटनी के मकान से अ० वनी कॉम्प्लेक्स व अ० वनी कॉम्प्लेक्स के पीछे पुराना जसवन्तपुरा रेलवे फाटक की तरफ की दुकानों एवम् रावताजी पेन्टर के मकान के पास के समस्त मकानों को लेते हुये पुराने जसवन्तपुरा रोड पर रघुकुल सोसायटी की बस्ती को लेते हुये नवदुर्गा कोलोनी की समस्त बस्ती को लेते हुये रोडो की ढाणी जाने वाली सड़क के राईट साईड तरफ की आर.टी.ओ. ऑफिस व समस्त कोलोनीयों को लेते हुये निम्बाली रोड पर छोगजी माली के मकान व पास के समस्त मकान । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
10	10	भीनमाल-जालोर रोड पर खजुरियां नाला से अमीचन्द जैन की कॉलोनी को लेते हुए दुरद नि केन्द्र के पीछे अम्बेडकर नगर कोलोनी व पास की कोलोनीयों को लेते हुये वेयर हाउस से कृषि उपज मंडी से भवर माली की दुकानों को लेते हुये अन्दर गली मे मुरारदान चारण व आस पास के मकानों को लेते हुये सांई प्लाजा कॉम्प्लेक्स से आम्बसिंह की दुकानों व गोदाम से मोरसीम ठाकुर की दुकानों को लेते हुये एवम् रेलवे लाईन के दुसरी तरफ खेतसिंह राठौड की गली के समस्त मकानों को लेते हुये गुणी नाडी के पीछे स्थित सासियों की बस्ती, मेघवालों की बस्ती, हनुमान कॉलोनी की समस्त बस्ती व आगे चम्पालाल सेवग की कॉलोनी को लेते हुए आगे भयाम नगर तक । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
11	11	भीनमाल जालोर रोड पर बांयी तरफ स्थित रिलाइन्स पेट्रोल पम्प व पीछे भीलों की समस्त बस्ती को लेते हुये होटल सुर्यकिरण से रामसिंह गुर्जर की दुकान से देराज वि नाई की दुकान से राधिका होटल होते हुये भवरसिंह देवडा की खातेदारी भूमि पर बसी बस्ती को लेते हुये आगे रेलवे क्रोसिंग से आर्द । नगर में प्याउ व आर्द । नगर कॉलोनी के समस्त मकानों को लेते हुये उम्मेद नगर कॉलोनी के समस्त बस्ती को लेते हुये आलोक पब्लिक स्कूल व पास मे व सामने स्थित आलोक नगर की बस्ती, मालियों का वास की बस्ती को लेते हुये आगे भीनमाल जालोर रोड पर खजुरिया पुलिया के पास मेघवाल समाज छात्रावास से आगे गुरु गान्ति नगर कॉलोनी व प्रदीप पेट्रोल पंप लेते हुये आगे 72 जिनालय मन्दिर व उसके पीछे स्थित तलकाराम का बेरा, मालाराम का बेरा, हिमताराम का बेरा, पेपसिंह का बेरा की समस्त बस्तीयां । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
12	12	श्रीमाल नगर, महावीर नगर, अम्बिका नगर, मारुति नगर आगे रावली बाव की बस्ती को लेते हुये खजुरिया नाला तक बसी समस्त कॉलोनीयों को लेते हुये लेदरमेर रोड पर लक्ष्मी नगर, गायत्री नगर, भगवती नगर व रेबारियों की ढाणी की भोश कॉलोनी, अचलाराम देवासी की दुकान व उसके पीछे नोन जी देवासी के मकान तक । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्तीया ।
13	13	भादरडा-भीनमाल रोड पर खजुरिया नाला के पास समस्त पाउआ बस्ती को लेते हुये फैयाज खां कोटवाल के मकान से कस्तुरजी माली की कॉलोनी के समस्त मकानों को लेते हुये आगे हाजी जीवेखां भाटी के मकान से हाजी इब्राहीम खां के मकान से आगे भोरखां कासमजी के मकान से दासपां-भीनमाल बाईपास रोड के बांयी तरफ गनी खां के मकान से अन्दर गली में रहमान खां के मकान व पीछे की समस्त दुदावा कॉलोनी को लेते हुये आम्बलवाव बेरे के पास की बस्ती लेते हुये जेठाजी माली के बेरे की बस्ती से रेबारियों की ढाणी मे हनुमान जी मन्दिर से अन्दर के रेबारियों के मौहल्ले मे बायी ओर के समस्त रेबारियों के मकान लेते हुये वचनाराम माली के मकान से खजुरिया नाला तक की समस्त

		बस्ती । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त कोटवाल,दर्जी,सोनी,माली व रेबारियों इत्यादी के मकानों की बस्ती ।
14	14	भीनमाल—दासपां मुख्य सड़क पर दांयी ओर जगजीवन राम कोलोनी मे स्थित जनगणना ब्लॉक मकान न. 167 कान्तिलाल के मकान से जनगणना ब्लॉक मकान न. 193 से मकान न. 133 रमे । जीनगर के मकान एम.पी. रोड पर मकान न. 162 अजमतअली के प्लॉट से दासपां रोड पर मकान न. 167 कान्तिलाल के मकान तक की समस्त जीनगरों के मकानों की बस्ती व आगे एम.पी रोड व भादरडा रोड के बीच स्थित फाफरिया कोटवाल बस्ती के समस्त मकान लेते हुये खजुरिया नाला तक के समस्त कोटवाल,मोयला बस्ती । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
15	15	भीनमाल दासपां मुख्य सड़क पर स्थित जगजीवन राम कोलोनी के दायी ओर ओटाराम मेघवाल की दुकान से कब्रिस्तान के मुख्य गेट तक व ओटाराम मेघवाल के मकान से अन्दर की दायी ओर की गली के दोनों ओर के समस्त मकानों को लेते हुये भांतिलाल ,जगदी । के मकान तक व आगे गाडलिया लुहारो के मकानों की बस्ती व हनुमान जी मन्दिर के पास की गली के समस्त जीनगरों के मकान लेते हुये छोगाराम जीनगर के मकान तक व आगे चम्पालाल के मकान से रामाराम जीनगर के मकान से फुसेखां कोटवाल का मकान लेते हुये इसी लाईन मे समस्त जीनगर बस्ती लेते हुये दांसपां रोड तक एवम् एम.पी. रोड पर खजुरिया नाले के उपर हाजी सत्तारखां बैहलीम की कोलोनी,वरदाराम सुथार की कोलोनी के समस्त बस्ती । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
16	16	दांसपां रोड पर स्थित जटियों के कुण्ड की बस्ती लेते हुये मालियों की ढाणी की समस्त बस्ती खजुरिया नाला तक व सामने गोलवाणा बेरा की बस्ती व आगे मेघवालों की गली मे मेघवालों के मकान लेते हुये गोमती तालाब के पास बसी समस्त मेघवाल बस्ती लेते हुये मुख्य सड़क पर थानाराम के मकान से भीमाराम का मकान व आगे रमे । कुमार का मकान व अन्दर की गली के समस्त मकानात व भाणाराम की दुकान से रेखाराम के मकान व आगे भाट समाज भाम गान भूमि तक व आगे कमल टेन्ट हाउस से कि अनलाल के मकान से आगे सुरेन्द्र कुमार व आगे राजेन्द्र टी स्टॉल से उकाराम जटिया का मकान से हाजी कासमखां के मकान से पारस की दुकान तक व अन्दर की समस्त गलियां व गोमती (गोलाणी) तालाब तक । वार्ड सीमा के अन्दर तक की समस्त बस्ती ।
17	17	जुंजाणी रोड पर नीलकंठ महादेव मन्दिर के सामने स्थित जुंजाणी—दांसपां बाई पास रोड पर नाथों की भाम गान से राव समाज की भाम गान से माली समाज भाम गान भूमि से आगे कृश्णा हॉस्पीटल से आगे होतचन्द महे वरी के दुकान से आगे रुस्तम खां नियारगर की दुकानों से करणसिंह राव के मकान से होते हुये नरेन्द्रसिंह राव के मकान से राजूसिंह पहाड़ सिंह राव का मकान आगे नारायणलाल सरगरा के मकान व आगे जमाल खां कासमखां जी व बगदेखां कोटवाल का मकान होते हुये आगे गोकुलदास के मकान से सरदारखां के मकान व आगे सेन जी महाराज मन्दिर होते हुये जैसाराम माली की दुकान से दांसपां रोड पर मेघवाल समाज भाम गान भूमि व इसी लाईन मे रावों के समस्त मकानात लेते हुये सतीथडा व आगे बाईपास रोड होते हुये नाथों की भाम गान तक एवम् वार्ड सीमा के अन्दर स्थित भीलों के मकानात,पृथ्वीसिंह राव,मेघवालों व गुरुओं की बस्ती,कोटवाल बस्ती (बैहलीम मौहल्ला),पुराना नरता रोड पर दिने आसिंह राव,उगम कंवर का मकान,भरत सिंह भोजाणी का मकान से मोहब्बत सिंह राव अध्यापक का मकान जटिया समाज भाम गान भूमि होते हुये व आगे जयसिंह बगसिंह राव का मकान व अन्दर की समस्त बस्ती ।
18	18	वेनाराम सुखाडिया के मकान से अंगार भाह का तकिया से जटिया समाज सामुदायिक सभा भवन व आगे देवाजी जटिया व नेनाराम सुखाडिया की समस्त बस्ती लेते हुये होली चौक पर स्थित ट्रान्सफार्मर तक व सामने की रोड पर परसराम फुलवारिया का मकान,गंगा माता चबुतरा, जटियों की दुकानों से होते हुये राजूराम जी बालोटिया की गली व आगे गणपतलाल जी अध्यापक का

		मकान, इवम् मेडिकल आगे राजकीय अस्पताल क्वार्टर्स व सामने की तरफ अस्पताल रोड स्कूल के पास वाली गली में मालियों की बस्ती व आगे अन्दर की समस्त गुन्दरिया बस्ती। वार्ड सीमा के अन्दर तक की समस्त बस्ती।
19	19	राजकीय अस्पताल के पीछे के गेट से पुराना पुलिस थाना व आगे हरिभाई नाई का मकान, मेघवालों की गली से कि गोर बोहरा के कॉम्प्लेक्स को लेते हुये हरिजन बस्ती, मसरानाथ की गली, सुरे । बोहरा के मकान से भोजाणियों की गली को लेते हुये जबरमल मोदी के मकान से अचले वर जी व्यास की गली व सामने हाथियों की पोल की बस्ती से जैन मन्दिर से सदर बाजार होते हुये भोजराज जी भाह जी की दुकान से धोबियों का फलसा से बड़ा चौहटा व सामने बाबूलाल जी सोनी की दुकानों से पुखराज रायमल की गली के मकानों को लेते हुये कावेडियों का वास की समस्त बस्ती से चंदनमल कनाजी के मकान से चारभुजा मन्दिर होते हुये ब्रह्मपुरी की समस्त बस्ती लेते हुये लतीफ अंसारी के मकान से भीलों के चौहटे पर कोलचन्द सोनी का मकान व भयामसुन्दर की गली व घाटे वर महोदव मन्दिर से सुन्दरलाल, सती । व्यास, निरंजन व्यास, हुकमे वरजी व्यास के मकान व आगे आद । विद्या मन्दिर बालिका विद्यालय से जाखोब तालाब की पाल पर गुरुसों के मकान लेते हुये राजकीय अस्पताल के मुख्य गेट से पीछे के गेट तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
20	20	पूनासा रोड पर स्थित जीवनदास जी की बगेची से धर्मा अंकर श्रीमाली के मकान से चुन्नीलाल मिश्रीमल के काम्प्लेक्स से रेवाचन्द कंसारा का मकान से कृष्ण कुमार संकल मोदी के मकान से व आगे बाबूलाल भीमाजी भाट के मकान से भलाराम धनाजी के मकान से पास की गली के लेपट साईड के समस्त मकानों को लेते हुये नरसाजी भाट के मकान को लेते हुये भांकर खारेचा के मकान से हंजाराम अचला जी के मकान व अन्दर मिरासियों, भाटों व भीलों के मकानों को लेते हुये श्रवण कुमार बंजारा के मकान से देवी अंकर श्रीमाली के मकान से रावताराम सरगरा के मकान से धने वर चुन्नीलाल के मकान व सामने मोहनदास अमरदास के मकानों को लेते हुये जीवनदासजी की बगेची तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
21	21	कंसारों के वास के बाहर बाबूलाल दरगाजी के मकान से बाफना पोल की बस्ती को लेते हुये ईरानियों का मौहल्ला के समस्त मकान लेते हुये श्रीमाली बालकि । न के मकान से खीमचन्द, कोलचन्द के मकान से रामसिंह हिम्मतसिंह राव के मकान व पास वाली गली की बस्ती को लेते हुये चुन्नी घांची के मकान से नरपतसिंह राव के मकान से बाफना पोल व आगे भाटों के मकान लेते हुये गणे गाराम बंजारा के मकान की गली मेरा ईट साईड के समस्त मकान लेते हुये नरसाजी भाट के सामने की गली मेरा ईट साईड के मकानों को लेते हुये राजूजी मूला जी बंजारा का मकान व सामने काच्छा की समस्त भाट बस्ती लेते हुये संस्कृत स्कूल के सामने स्थित नारायणलाल भला जी भाट का मकान व पास की गली के स्थित समस्त भाटों के मकानों को लेते हुये इलादेवी के मकान से अम्बिका कोलोनी में स्थित समस्त भाटों के मकानों को लेते हुये उत्तम संघवी की दुकानों तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
22	22	घांचियों के चौहटे पर मालियों के मौहल्ले मेरा वाली सड़क के दोनों तरफ की गलियों मेरा मालियों की बस्ती के समस्त मकानात्, सुथारों के मकान, जी.एम. परमार का मकान से सायर पुरी का मकान व पास की बस्ती के मकानों को लेते हुये गेती बेरा से लगती हुई समस्त आबादी। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
23	23	सन्तोशी माताजी रोड पर वेलाजी उका जी घांची के मकान से चौपाराम वेला जी घांची के मकान से सन्तोशी माता मन्दिर, धुखाराम छोगाजी से बाबूलाल अदरा जी से आगे मंछाजी सोनी के मकान से घांचियों का चौहटा पर मफतसिंह के मकान को लेते हुये राईट साईड के समस्त मकानों को लेते हुये रामजी रावता जी घांची की चक्की से राईट साईड मेरा बाबूलाल नरसा जी के सामने भगवान

		जी घांची के मकान से डॉ. दुदराज के मकान से सुमेरमल मुल्तान जी के मकान लेते हुये नीचे मेघवालों की समस्त बस्ती लेते हुये भभूतगिरी टेन्ट हाउस तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त गलियों में घांचियों की बस्ती।
24	24	जगा भारती के मकान से दिलीप गोठी का मकान से कुम्हारों के धोरे पर तोलाराम जगताजी कुम्हार के मकान से मिलापचन्द जैन के मकान से सुथारो का वास लेते हुये आ गापुरा फ्लोर चक्की से आगे पुखराज भीमाणी का मकान लेते हुये कंसारों का वास के समस्त मकानात् लेते हुये सुनारो के वास व अन्दर की समस्त गलियां लेते हुये हाटडिया से रावली सेरी के अन्दर की समस्त गलियां आगे आसू भारती का मकान, पुराना महालक्ष्मी जी मन्दिर से आगे कुम्हारों के धोरे की गली लेते हुये जगा भारती के मकान तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
25	25	करडा रोड चौराहे पर जवाहर नगर कोलोनी में स्थित नारायण सिंह देवल की दुकानों से गणपतलाल बोहरा का मकान, निरंजन बोहरा के दुकान लेते हुये बाबूलाल जागरी के मकान से डॉ. एस. वि वास का मकान से सेन समाज छात्रावास से नेहरू बालोद्यान, गौ गाला रोड स्कूल से गायत्री मन्दिर लेते हुये एस.पी.सेठ के बंगले से खारी जाव होते हुये पार्वती मेडिकल से टीकूचन्द दरगाजी जोगाणी के मकान से मसानिया बेरा जाने वाली रोड पर मसानिया बेरा की समस्त बस्ती लेते हुये पुलिये से करडा रोड मुख्य सड़क को मिलाने वाली सड़क के बांधी ओर की समस्त बस्ती को लेते हुये करडा मुख्य सड़क पर मेघवालों व रेवारियों की समस्त बस्ती लेते हुये कालूराम माली के मकान से अम्बालाल व्यास के प्लॉट से ओम पैलेस से दुर्गा सीमेन्ट प्रोडेक्ट की दुकान से दिने । खण्डेलवाल वकील के मकान को लेते हुये करडा चार रास्ता पर विजयलक्ष्मीचन्द्र सुरी वर की प्याउ से नारायण सिंह देवल की दुकानों तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
26	26	माघ चौक पर स्थित माघ कोलोनी की गली में दायी तरफ स्थित सदर बाजार स्कूल के कॉर्नर से कस्तुरचन्द चौपडा के मकान से डॉ. श्रवण मोदी के मकान से भीनमाल रानीवाडा रोड पर स्थित चौधरी ट्रान्सपोर्ट से आगे भीनमाल रानीवाडा बाई पास रोड पर राजपूत समाज सर्किंट हाउस से भौणी फर्निचर से संजय व भयाम मार्बल से मारुति भो रुम से फि वराज स्टेडियम से जवाहर नगर के भोश मकान लेते हुये ओडो की गली से गांगलवा व नागदरा जाव के समस्त मकान लेते हुये चम्पालाल सेठ के मकान से अन्दर ओडो की गली में दायी ओर के मकानात् लेते हुये प्रेमसिंह (कैला । नमकीन) के मकान से मुरारी के मकान से वकील बस्तीमल खत्री के मकान व आगे कचहरी रोड स्कूल होते हुये सदर बाजार स्कूल तक। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
27	27	माघ चौक पर स्थित वन्दना फोटो स्टेट से सुखराज नाहर के नये बंगले से रिद्धि सिद्धि जैन मन्दिर लेते हुये हेमराज बाफना के मकान/दुकानों से पी.डब्लू.डी. विश्वाम गृह होते हुये एस.डी.एम. आवास से आगे पंचायत समिति होते हुये सम्राट होटल से आगे पृथ्वीप्लाजा कॉम्प्लेक्स से एलएमबी होटल से विद्युत विभाग कार्यालय के गेट से दिने । पुरोहित का मकान, हंसराज मिस्त्री का मकान व आगे जेठमल कोठारी का मकान होते हुये कन्हैयालाल खण्डेलवाल का मकान व आगे मोहन जी के गा जी मेहता का मकान लेते हुये प्रका । जी जैन के मकान से वन्दना फोटो स्टेट तक। वार्ड सीमा में स्थित प्रताप कोलोनी, माघ कोलोनी, नेहरू पार्क के पास की बस्ती, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के पास की समस्त बस्ती।
28	28	शिवनारायण गोदूलाल की गोल बिल्डिंग से राईट हेण्ड के तमाम दुकानों व भवन को लेते हुए सागर होटल से आगे महावीर चौराहा पर सोना एन्टरप्राइजेज (मोहम्मद चुडीगर की जमीन) से ठठेरों की गली में आमने सामने की समस्त बस्ती को लेते हुए रोडवेज बस स्टेण्ड, नीलकमल होटल, अग्रवाल कॉलोनी की समस्त बस्ती को लेते हुए हरिजन कॉलोनी की समस्त बस्ती लेते हुए भूरजी माली के मकान व आगे भवानीसिंह की दुकान से वाटर वर्क्स, बालिका रेलवे

		स्टेशन स्कूल, लाईफ लाईन अस्पताल व पीछे चतुर्भुज खेतावत के खेत की बस्ती तक। वार्ड सीमा के अन्दर तक की समस्त बस्ती।
29	29	पाताराम के कॉम्प्लेक्स के सामने महे वरी के दुकान से तलबी रोड पर मोहन जी कुमावत के मकान से सूर्य मन्दिर व आगे तलबी त्रयम्बके वर मन्दिर व आगे वरुणाची मन्दिर होते हुये आगे सड़क के दायी ओर के भीलो व महे वरीयों की बस्ती लेते हुये सामने सुखजी सुथार के मकान से सुरम सिंह का मकान के दोनों तरफ की बस्ती, रेबारियों की बस्ती से आगे भवसिंह के मकान से हरिसिंह के मकान से आगे कराडा मे स्थित रेबारियों के मकानात लेते हुये मिरासियों के कब्रिस्तान व विनायकपुरी स्कूल व जालोर रोड पर पाताराम के काम्प्लेक्स के सामने महे वरी की दुकानों से प्रेम जी बंजारा की दुकानों से बेलाडा नाडा के पास की समस्त बस्ती लेते हुये कृषि उपज मंडी की समस्त दुकानों को लेते हुये कृषि मंडी सचिव के आवास को लेते हेतु प्रजापत समाज छात्रावास एवम उसके पीछे की समस्त बस्ती व तलबी रोड पर स्थित गुरुओं की बस्ती के समस्त मकानात व मदरसा, मुरारदान चारण के मकान की गली के आमने—सामने के मकानात। वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती।
30	30	आमदया बेरा के समस्त मकान लेते हुये आगे राजू अग्रवाल के गोदाम से वि वकर्मा फर्निचर के पीछे की बस्ती मे कृष्ण कुमार भील के मकान को लेते हुये मस्सरसिंह के मकान व आगे अगली गली मे बाबूसिंह, सावित्री देवी के मकान के लाईन के समस्त मकान व किरण सुथार के मकान की लाईन के समस्त मकान लेते हुये आगे उमेदखां के मकान व पास की गली के अन्दर के समस्त भीलों व मिरासियों के मकानों को लेते हुये सामने मंछाराम भील व आगे रेवतसिंह का मकान, लक्ष्मणाराम, भंवराराम, कृष्णाराम के मकान व उसके पीछे समस्त भीलों के मकानों को लेते हुये व सामने मूमल देवी वि नोई के घर से बाबूखां के मकान व आगे अग्रवाल भाम ान, जैन भाम ान व आगे नान जी चक्की होते हुये आगे जीनगरों व भीलों के समस्त मकानों को लेते हुये कपूरे वर महोदव मन्दिर व आगे मगनाजी भाट के प्लॉट से आगे गली मे समस्त मकानात लेते हुये गौरव पथ पर माली समाज रामदेव मन्दिर से कराडा की पाल से होते हुये आमदया बेरा तक। वार्ड सीमा के अन्दर के समस्त भील, मिरासी व रावणा राजपूत इत्यादी के समस्त मकानात।
31	31	भीनमाल दासपां रोड पर बरकत खां उसमान जी के मकान से भदेखां कोटवाल के मकान से आगे उमरदीन बक्सूजी कोटवाल के मकान व सामने की गली मे भोरखां उसमान जी के मकान से दिने । नैनाराम बंजारा के मकान से उसमान गनी के मकान से आगे पारसखां कासमजी कोटवाल के मकान से दासपां रोड पर सुथारो की बिल्डिंग से भवानी मेडिकल से रामाजी माली का मकान से गोदाराम चौधरी से जेठाराम वि नोई के मकान से कि अनपुरी के मकान से सीता देवी रावणा राजपूत का मकान व पास वाली गली मे प्रताप कुम्हार मकान से हीमाराम माली का मकान व दासपां भीनमाल बाई पास मुख्य सड़क के बांयी ओर भवाराम माली, मोडसिंह राव, जीतू माली का मकान व आगे माली समाज भाम ान भूमि व आगे आम्बलवाव बेरा के पास जीनगर समाज के जुंजार मन्दिर लेते हुये सोमाराम, अरविन्द कुमार, सोमताराम व गनी खां भेड़ाना के मकानों की गलीयों की समस्त बस्ती लेते हुये मसराराम के मकान से कृष्ण दर्जी के मकान से इसी लाईन मे आगे अमूखां भारता जी के मकान से दासपां रोड पर बरकतखां उसमान जी के मकान तक वार्ड सीमा के अन्दर की माली, कोटवाल, दर्जी व नाई इत्यादी के समस्त मकानों की बस्ती।
32	32	दासपां रोड पर जगजीवनराम कोलोनी मे पदमाराम बंजारा के मकान से पारसमल जीनगर के दुकान/मकान से भादरडा चुंगी नाका से सत्तार खां अल्काजी के मकान से आगे चौधरी मिश्टान भण्डार से रुपाराम जीनगर के मकान से फाउलाल जीनगर के मकान से मूलाराम देवासी के गोदाम से अन्दर की तरफ उमेदखां मोयला के मकान से गायत्री पब्लिक स्कूल से सुआ बाई कोटवाल का मकान से आगे पारस बंजारा का मकान से नैनाराम बंजारा के

		मकान से भांकर जी बंजारा के मकान से जगजीवनराम कोलोनी स्कूल से सुरे । फाउलाल जीनगर के मकान से पदमाराम बंजारा के मकान तक । वार्ड सीमा के अन्दर स्थित समस्त जीनगर,बंजारा एवं कोटवालों के मकानात् ।
33	33	होली चौक स्थित सामुदायिक भौचालय से ईकबाल खैरादी का मकान से पिन्टुखां नायक का मकान होते हुये सोनाराम जटिया का मकान व सामने दासपां रोड पर जयहिन्द पब्लिक स्कूल,बोदुराम जटिया का मकान कब्रिस्तान व आगे जैसे खां नवाजी कोटवाल का मकान से जगजीवनराम कोलोनी के मुख्य सड़क पर स्थित हकीमखां साईं के मकान से अजीजखां मिस्त्री के मकान से नैनारामजी जटिया के प्लॉट से जुगराज जी बंजारा का मकान से दिने । बंजारा के मकान से सीतादेवी बंजारा के मकान तक व आगे गली मे दायी तरफ आगे के मकानात लेते हुये मनोहर जटिया के मकान से सामने की तरफ गली के दोनो तरफ जयसिंध के मकान से जटिया समाज छात्रावास से सामने नरे । सुखाडिया के मकान व आगे मेहता चिल्डन हॉस्पीटल से होली चौक स्थित सार्वजनिक भौचालय तक व वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त जटिया बस्ती,भाट बस्ती व कोटवालो व जीनगरो के मकान ।
34	34	पुराना पुलिस थाना के सामने स्थित ८ वाम हॉस्पीटल (डॉ.वारडे) से नाथूराम जीनगर का मकान से प्रभारामजी की धुणी के समस्त मकानात लेते हुये पुराना सिनेमा हॉल से भालीग्राम अस्पताल से नैनाराम जी की धुणी की गली के दोनो ओर के समस्त मकान से होली चौक स्थित गोविन्द बंजारा के मकान से मोतीलाल बंजारा के मकान से तीकमाराम देवासी के गोदाम से भौकतखां बैहलीम के पुराने मकान से सुनारों के मकान लेते हुये हीराजी प्रजापत के मकान से आखरिया के पीछे की गली मे सुन्धा रोप वे स्टोर दुकान से छोगजी माली की दुकानों से रमे । वेलाजी की दुकान से हाजी भवरुखां का मकान व सामने जलालुदीन नियारगर के मकान से भाटो के मकान लेते हुये मगना जी भाट के मकान से अन्दर की गली मे समस्त भाटो के मकानो तक । वार्ड सीमा के अन्दर डायाजी सुथार,सलामुदीन नियारगर,मोहम्मदखां कोटवाल,निसारखां नियारगर,डायालाल सोनी के मकानात वगैरहा ।
35	35	मालनियो के चौहटे पर पोलाराम माली की दुकानो से जीनगर बाजार मे बांयी तरफ सुमेरमल की दुकान से मोहम्मद चुड़ीगर की गली,वियाराम जीनगर की गली के समस्त मकानात लेते हुये जीनगरों का चौहटा व आगे बांयी तरफ हवालदारों की पोल व पास की गली के समस्त जीनगरों के मकानों लेते हुये लखारों के चौहटे पर कन्हैयालाल की दुकान से माली समाज नोहरे से रमे । कुमार,इन्द्रमल का मकान से न्यू जैन कॉलोनी लेते हुये भाहर मस्जिद व पास की गलियां व गिरधारी लाल चमना जी के पास की गली मे जैन व नागरों के मकानों को लेते हुये सुखराज संघर्षी से उम्मेदराज दुदाजी जीनगर के मकान से कपूरचन्द जीनगर की दुकान से डायाराम के मकान से आगे लखारो के चौहटे पर लखारों की गली के समस्त मकानात लेते हुये उसी लाईन में प्रेमजी बंजारा की गली के मकान लेते हुये दिने । खटीक के मकान से दावल गाह तकीये से मनोहर जीनगर के मकान की लाईन के मकानात लेते हुये आगे रोड पर सुमेरमल जीनगर के मकान के सामने हीरजी की दुकान तक के समस्त जीनगरों के मकान । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
36	36	पुराना ८ वाम बालनिकेतन स्कूल से नागरों के मकान लेते हुये मनोहर नागर के मकान से सामने पुराना लक्ष्मीजी मन्दिर व सामने कान्तिलाल चेला जी सु लीला दो गी के मकान से प्रेम भारती का मकान व आगे खारी रोड पर मोहन जी जावतराज जी सेठ का मकान से अंकी बाई गोवाणी के नोहरे से दिव्य ज्योति एजेन्सी से उपली सेरी के समस्त मकानात ,नेहरू मॉर्केट,सेठो की पोल,भण्डारियों की गली,रुपाणियों का वास से कोठारियों की पोल से डॉ. सोहनराज जैन का मकान व आगे देवेन्द्र भण्डारी का मकान व सामने टीकमाराम सुथार का मकान लेते हुये आगे मूलचन्द सोनी का मकान,तेजराज भण्डारी का मकान की गली,कबूतरो का चौहटा से रमे । बाफना की गली के समस्त मकान आगे

		सेखाणियों का वास, वराह याम मन्दिर, गांधी मुथो का वास व आगे सदर बाजार गण । चौक होते हुये दोनों यों की पोल, महालक्ष्मी मन्दिर आगे पृथ्वीराज हुण्डियों की गली से तलानियों का वास, ठाकुर जी मन्दिर के पास की गलियां लेते हुये खारी रोड पर पर मोहन जी जावंतराज जी सेठ के मकान तक । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
37	37	माघ चौक पर स्थित जयन्त विला से अधि गांशी अधिकारी निवास से आगे बाल मन्दिर बगीचे से सामने विकास भवन, एस.डी.एम. कोर्ट से उपकारागृह व उपकारागृह के पीछे से जागनाथ कोलोनी के मकानों को लेते हुये हीरालाल बोहरा के नये मकान से चण्डीनाथ कुण्डालियों के पीछे की गली में दायें हाथ के मकानों को लेते हुये ओडो की गली के दायी और जीवदया गौ गाला से आगे वि वकर्मा मन्दिर से आर्युवेदिक अस्पताल से पारे वर जी बोहरा की दुकानों से खारी रोड पर स्थित पुर्णिमा टी हाउस से पुराना टेलिफोन एक्सचैन्ज की गली के समस्त मकानों को लेते हुये अन्दर की गली में डां नेमीचन्द के मकान से घमण्डीराम गोवाणी के मकान से समस्त व्यासों व बोहरो के मकानों को लेते हुये दामोदरलाल बोहरा के मकान से त्रि गला बिल्डिंग व आगे पीपली चौक पर अंच वनी दवे के मकान को लेते हुये हुण्डियों का वास के समस्त मकान लेते हुये बड़लावाला चौक पर भैरव गैस सर्विस से कान जी अग्रवाल का मकान लेते हुये व पास की गली के अन्दर से समस्त मकान लेते हुये चम्पालाल कोठारी का मकान लेते हुये सामने गंवरी अंकर ठाकुर के आस पास के मकानों से कान्तिलाल बोहरा की गली की के अन्दर के समस्त मकान लेते हुये नाथूलाल श्रीमाली के मकान से जयनारायण श्रीमाली का मकान लेते हुये देवीचन्द वर्धन के मकान से मालनियों के चौहटे पर स्थित कृष्णा प्रोविजन स्टोर तक व पीपली चौक पर माघ चौक जाने वाले रास्ते पर भैरव गैस सर्विस से मुख्य सड़क के दोनों ओर के मकान व दुकानों को लेते हुये माघ चौक पर स्थित जयंत विला तक । वार्ड सीमा के अन्दर के चण्डीनाथ कोलोनी, नगर पालिका इत्यादी समस्त मकान बस्ती ।
38	38	महावीर सर्कल पर स्थित लाभ अंकर, मोहनलाल जी ठाकुर की दुकानों से सांवलाराम देवासी के गोदाम से आर्य समाज व आगे धुखाराम सुथार की दुकानों से मोहन खटीक का मकान व आगे आईस फैक्ट्री होते हुये रामदेव जी मन्दिर, अवस्थियों के मकान लेते हुये वैश्णव स्ट्रीट भांकरदास, गौरि अंकर के मकान लेते हुये सामने जगदी । त्रिवेदी हरि चन्द्र निम्बार्क का मकान व भालीग्राम जी अस्पताल व सामने विजयराज बंजारा की नई दुकानों से चान्दमल वैश्णव, मोहनजी वैश्णव का मकान व आगे प्रवीण, सुरे । थान जी जीनगर का मकान से जीनगर न्याति नोहरे से सुमेरमल जीनगर के मकान से आगे अम्बे जूती कॉर्नर से मालनियों का चौहटा पर कोहिनुर जूती कॉर्नर, कोरो वाली गली, बस्तीमल कानूनंगो का मकान, मनोहरमल, गुमान मल के मकान वाली गली, भीलो का चौहटा, गोपाल राजपूत हॉस्टल, लालचन्द बाफना का मकान, सिंगातरों का वास की बस्ती, मालनियों का चौहटा पर भंवर जी जोगाणी के मकान से जुगराज जी नागर के मकान से हीरालाल दवे के मकान व आगे सुन्दरलाल जी वकील का पुराना मकान लेते हुये लाभ अंकर जी ठाकुर की गली, रवि ठाकुर का मकान, महावीर स्वामी का मन्दिर, पुराना पोस्ट ऑफिस होते हुये आईदान का ढाबा से आगे लाभ अंकर जी, मोहनलाल जी ठाकुर की दुकानों तक । वार्ड सीमा के अन्दर की समस्त बस्ती ।
39	39	महावीर सर्कल पर भलजी माली की दुकान से भवरसिंह देवड़ा की दुकान व जी. एम. कॉम्प्लेक्स से महेश्वरजी मन्दिर, जैन समाज स्नानगृह से स्कूल ग्राउण्ड होते हुये रामदेवजी मन्दिर व रावणा राजपूत छात्रावास व आगे पूरारामजी के कॉम्प्लेक्स से पुखराज अग्रवाल के जाव में बनी दुकानों व खेतावत सेवा सदन को लेते हुए मेघवालों की बस्ती व अन्दर तलबी रोड पर दोनों ओर की बस्ती (गुरुओं की बस्ती को छोड़कर) को लेते हुए एवं कुण्डालियां में बसी समस्त बस्ती तक व भीनमाल दासपां बाई पास मुख्य सड़क पर स्थित वि वकर्मा वुड

		फर्निचर से कृष्णा कुमार से मूलाराम राणा के मकान से किरण सुथार के वर्कशोप से हाजी अब्दुलगनी से शरीफ मोहम्मद के मकान तक के समस्त मकानात् तक। वार्ड सीमा के अन्दर तक की समस्त बस्ती।
40	40	हाईस्कूल रोड पर गायों के आखरिये से हाईस्कूल लेते हुये आगे बाबूजी नाई के मकान से भंवराराम सुथार के गोदाम से आगे भाँकर कोडिया के मकान से भारताजी माली, जयरुपाराम माली, कान्तिलाल के मकानों को लेते हुये देवासी छात्रावास तक व देवासी छात्रावास के सामने बाबूजी नाई के मकान से बालूसिंह के मकान आगे गोगाजी चौक पर जीवाजी की चक्की तक व सामने बालूसिंह के मकान से मनरूप जी की चक्की तक के समस्त मकान लेते हुये होती जी सुथार का मकान से आगे ठाकर की होटल के पीछे की गली के दोनों ओर के मकानों को लेते हुये जीवाजी की चक्की से नेकाराम भाट के मकान से दासपां बाईपास रोड पर बाबूलाल लखारा के मकान लेते हुये व आगे जनगणना ब्लांक मकान सं. 108 से 112 तक के मकानों को लेते हुये नारायण लाल माली का मकान से जबराराम प्रजापत व आगे जगदीशप्रसाद वैश्वनव के मकाने से खारा कुंआ स्कूल व खाराकुंआ स्कूल के सामने वाली लाईन के समस्त मकानों को लेते हुये रामलाल लुहार के मकान से ठाकर की होटल से गायों का आखरिया तक। वार्ड सीमा के अन्दर के समस्त माली, कुम्हार व नागर इत्यादी के समस्त मकानात्।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।